

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने सिटी की सुलभ फैसिलिटीज को उजागर करने के लिए एक्सेसनाउ के साथ साझेदारी की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (8 अगस्त, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने कम्युनिटी में सिटी की सुलभ फैसिलिटीज को उजागर करने के लिए, एक्सेसनाउ (AccessNow) के साथ साझेदारी की है।

ब्रैम्पटन एक मोजैक है और सिटी, सभी के लिए सुलभता और अपनेपन की भावना को बढ़ाने के अवसरों की पहचान करने के लिए समर्पित है। एक्सेसनाउ, Google Play (गूगल प्ले) और एप्पल ऐप स्टोर (Apple App Store) पर उपलब्ध एक ऐप है, जिससे उपयोगकर्ता पूरी दुनिया के 35 देशों में, 26,000 से अधिक सुलभ और गैर-सुलभ पिन की गई लोकेशन्स ढूंढ सकते हैं। इस साझेदारी के द्वारा निवासी, ट्रेल्स, पार्को, रेक्रिएशन सेंटर्स सहित, सिटी की सुलभ फैसिलिटीज को खोजने, रेटिंग देने और ढूंढने योग्य होंगे।

निवासी, एक्सेसनाउ पर लोकल रेस्टोरेण्ट्स, होटलों, दुकानों और आकर्षणों को भी खोजने, रेटिंग देने और ढूंढने योग्य होंगे। ब्रैम्पटन के कारोबारों को सलाह दी जाती है कि वे [यहां \(here\)](#) ऐप में अपनी सुलभता जानकारी शामिल करें।

### ब्रैम्पटन में सुलभता

सिटी और इसकी [एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी \(Accessibility Advisory Committee\)](#), यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर उम्र और योग्यताओं वाले लोग ब्रैम्पटन में रहने, काम करने, खेलने, आने और निवेश करने के समान अवसरों का आनंद लें। सिटी में सुलभता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।

### एक्सेसनाउ

एक्सेसनाउ एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट है, जो पूरी दुनिया की सुलभता स्थिति के बारे में जानकारी साझा करती है। विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए तैयार किया गया यह प्लेटफॉर्म, समीक्षाओं को एकत्र करता है और सुलभता के पहलुओं को प्रकाशित करने के लिए कारोबार मालिकों के साथ मिलकर काम करता है, जैसे सुलभ पार्किंग और वॉशरूम्स, एलिवेटर्स, रैम्प्स, सेंट-फ्री, शांत जगहें तथा और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए, [www.accessnow.com](http://www.accessnow.com) पर जाएं।

### हवाले

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और सिटी, हमारी विविध कम्युनिटी में सभी के लिए सुलभता और अपनेपन की मजबूत भावना को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं ब्रैम्पटन के निवासियों को सलाह देता हूँ कि, हमारी सिटी की फैसिलिटीज में उपलब्ध सुलभता विशेषताओं के बारे में पता करने के लिए और हमारी फैसिलिटीज को रेटिंग देने के लिए एक्सेसनाउ ऐप डाउनलोड करें, ताकि हम सभी के लिए सुलभता में सुधार करने के लिए काम करना जारी रख पाएं। इकट्ठे मिलकर, हम हर योग्यता वाले लोगों के लिए एक अधिक भागीदारी वाली कम्युनिटी बनाना जारी रख सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और रीजन ऑफ पील की एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर के तौर पर, मुझे उस काम पर हमेशा गर्व महसूस होता है, जो हमारी सिटी, हमारी कम्युनिटी को सबके लिए अधिक सुलभ और भागीदारी वाला बनाने के लिए कर रही है। एक्सेसनाउ, हमारे पूरे शहर में सुलभ फैसिलिटीज को खोजने, रेटिंग देने और टूटने के लिए एक शानदार टूल है। मैं ब्रैम्पटन के कारोबारों को सलाह देता हूँ कि वे ऐप में अपनी जानकारी शामिल करें और निवासी ऐप को डाउनलोड करके इस बारे में जानें।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; मेम्बर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी; मेम्बर, रीजन ऑफ पील एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम टर्म ऑफ काउंसिल प्राइरिटी: ब्रैम्पटन एक मोजैक है, को आगे बढ़ाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर उम्र और योग्यताओं वाले लोग महसूस करते हैं कि उनका स्वागत और उन्हें शामिल किया जाता है। सिटी, हमारी कम्युनिटी में सुलभ फैसिलिटीज को उजागर करने के लिए एक्सेसनाउ के साथ साझेदारी करने पर उत्साहित है और हमारे निवासियों के लिए सुलभता बढ़ाने के अवसरों की पहचान करना जारी रखेगी।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“एक्सेनाउ में, हमें नागरिकों और आगंतुकों के लिए शहर की सुलभता को उजागर करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। सिटी, एक्सेसनाउ और संपूर्ण कम्युनिटी के बीच में यह सहयोग, लीडरशिप और सहायता की शानदार मिसाल है, जिससे दूसरों को इस बारे में प्रेरणा लेनी चाहिए कि म्युनिसिपल्टी, विकलांग नागरिकों को बेहतर सहायता कैसे दे सकती है।”

- मायान ज़िव (Maayan Ziv), फाउंडर और सी.ई.ओ. एक्सेसनाउ

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)

